



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2773]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2019/भाद्र 04, 1941

No. 2773]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2019/BHADRA 04, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2019

का.आ. 3038(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के मोगा जिले में नेशनल हाईवे-२५४ फ्रॉम किलो मीटर ३८.०० तो ५६.२४० एंड किलो मीटर ७०.५०० तो ८०.१६० (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नेहाल सिंह वाला) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के मोगा जिले में नेशनल हाईवे-२५४ फ्रॉम किलो मीटर ३८.०० तो ५६.२४० एंड किलो मीटर ७०.५०० तो ८०.१६० (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नेहाल सिंह वाला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: मोगा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: निहाल सिंहवाला					
गांव का नाम: दीना (१४५)					
1	163	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
2	19/5/1/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0784000(हेक्टेयर)	0.0784000
3	19/5/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
4	19/6/1/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
5	19/6/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
6	9/17/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
7	9/24/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
8	9/25/1/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
गांव का नाम: छाई (१४८)					
1	101/12/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0506000(हेक्टेयर)	0.0506000
2	101/2/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0569000(हेक्टेयर)	0.0569000
3	101/2/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.1012000(हेक्टेयर)	0.1012000
4	101/9/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0506000(हेक्टेयर)	0.0506000
5	101/9/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1163000(हेक्टेयर)	0.1163000
6	156	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन मारिया	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
7	16/12/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0329000(हेक्टेयर)	0.0329000
8	16/13/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0658000(हेक्टेयर)	0.0658000
9	16/18	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
10	16/19/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000
11	16/22/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1239000(हेक्टेयर)	0.1239000
12	16/23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
13	16/8/1/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0304000(हेक्टेयर)	0.0304000

14	29//13/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0607000(हेक्टेयर)	0.0607000
15	29//13/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0809000(हेक्टेयर)	0.0809000
16	29//13/4	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
17	29//17	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
18	29//18/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
19	29//18/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1189000(हेक्टेयर)	0.1189000
20	29//2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0809000(हेक्टेयर)	0.0809000
21	29//23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
22	29//24	निजी	एग्रीकल्चर	0.1290000(हेक्टेयर)	0.1290000
23	29//3/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
24	29//3/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
25	29//3/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
26	29//8/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
27	29//8/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0885000(हेक्टेयर)	0.0885000
28	29//8/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
29	29//9	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
30	315/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन गड़खड़	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
31	316/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन गड़खड़	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
32	317/5	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन गड़खड़	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
33	322	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन गड़खड़	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
34	339/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता गैर मुमकिन	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
35	340/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
36	358	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
37	41//14/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0506000(हेक्टेयर)	0.0506000
38	41//15/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000
39	41//15/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0658000(हेक्टेयर)	0.0658000
40	41//16	निजी	एग्रीकल्चर	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000
41	41//25	निजी	एग्रीकल्चर	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000
42	41//4/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1543000(हेक्टेयर)	0.1543000

43	41//4/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
44	41//6	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
45	41//7	निजी	एग्रीकल्चर	0.1518000(हेक्टेयर)	0.1518000
46	413/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
47	59//10/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
48	59//11	निजी	एग्रीकल्चर	0.0607000(हेक्टेयर)	0.0607000
49	59//20/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
50	59//20/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0304000(हेक्टेयर)	0.0304000
51	59//20/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
52	59//21/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0961000(हेक्टेयर)	0.0961000
53	60//15	निजी	एग्रीकल्चर	0.0911000(हेक्टेयर)	0.0911000
54	60//16/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
55	60//16/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
56	60//25/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
57	60//25/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
58	60//5/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0506000(हेक्टेयर)	0.0506000
59	60//5/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1062000(हेक्टेयर)	0.1062000
60	60//6	निजी	एग्रीकल्चर	0.1416000(हेक्टेयर)	0.1416000
61	71//15/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
62	71//15/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0911000(हेक्टेयर)	0.0911000
63	71//16/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0566000(हेक्टेयर)	0.0566000
64	71//16/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000
65	71//16/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0405000(हेक्टेयर)	0.0405000
66	71//25/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1037000(हेक्टेयर)	0.1037000
67	71//25/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
68	71//25/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0392000(हेक्टेयर)	0.0392000
69	71//5	निजी	एग्रीकल्चर	0.0556000(हेक्टेयर)	0.0556000
70	71//6	निजी	एग्रीकल्चर	0.0759000(हेक्टेयर)	0.0759000
71	72//1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0911000(हेक्टेयर)	0.0911000

72	72//10	निजी	एग्रीकल्चर	0.0809000(हेक्टेयर)	0.0809000
73	72//11	निजी	एग्रीकल्चर	0.0556000(हेक्टेयर)	0.0556000
74	72//20	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
75	82//14	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
76	82//15/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0531000(हेक्टेयर)	0.0531000
77	82//15/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
78	82//15/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
79	82//16/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
80	82//17	निजी	एग्रीकल्चर	0.1416000(हेक्टेयर)	0.1416000
81	82//24	निजी	एग्रीकल्चर	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000
82	82//5/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000
83	82//6	निजी	एग्रीकल्चर	0.1669000(हेक्टेयर)	0.1669000
84	92//13/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1518000(हेक्टेयर)	0.1518000
85	92//13/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
86	92//18/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
87	92//18/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1239000(हेक्टेयर)	0.1239000
88	92//19/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0304000(हेक्टेयर)	0.0304000
89	92//22	निजी	एग्रीकल्चर	0.1366000(हेक्टेयर)	0.1366000
90	92//23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0405000(हेक्टेयर)	0.0405000
91	92//3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0304000(हेक्टेयर)	0.0304000
92	92//4/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1163000(हेक्टेयर)	0.1163000
93	92//4/2	निजी	गैर मुमकिन	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
94	92//7	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
95	92//8	निजी	एग्रीकल्चर	0.1416000(हेक्टेयर)	0.1416000
गांव का नाम: छोटे (१५२)					
1	115//2	निजी	गैर मुमकिन	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
2	60//19/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
3	60//20/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1037000(हेक्टेयर)	0.1037000
4	60//21/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0076000(हेक्टेयर)	0.0076000

5	60//22	निजी	एग्रीकल्चर	0.1189000(हेक्टेयर)	0.1189000
6	60//23/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
7	60//23/1/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
8	62//10/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0304000(हेक्टेयर)	0.0304000
9	62//11/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0911000(हेक्टेयर)	0.0911000
10	62//12/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0809000(हेक्टेयर)	0.0809000
11	62//18/1	निजी	गैर मुक्तिमण माकन	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
12	62//18/2	निजी	गैर मुक्तिम	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000
13	62//19	निजी	एग्रीकल्चर	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000
14	63//3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0784000(हेक्टेयर)	0.0784000
15	63//4/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0986000(हेक्टेयर)	0.0986000
16	63//6/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1315000(हेक्टेयर)	0.1315000
17	63//7	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
गांव का नाम: पत्तो हीरासिंह (१५४)					
1	114//3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
2	114//4/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1239000(हेक्टेयर)	0.1239000
3	114//7/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
4	114//8/1/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
5	114//8/2/1	अन्य(ग्राम पंचायत)	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
6	14//25/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0632000(हेक्टेयर)	0.0632000
7	18//4/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0531000(हेक्टेयर)	0.0531000
8	18//4/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
9	18//5/1/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0708000(हेक्टेयर)	0.0708000
10	625	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मां रास्ता	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
11	85//21/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
12	97//1/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
13	97//12/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
14	97//13/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
15	97//13/3/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000

16	97//17/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0835000(हेक्टेयर)	0.0835000
17	97//18/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0481000(हेक्टेयर)	0.0481000
18	97//18/1/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1214000(हेक्टेयर)	0.1214000
19	97//2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
20	97//23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0759000(हेक्टेयर)	0.0759000
21	97//24/1/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.1442000(हेक्टेयर)	0.1442000
22	97//24/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0076000(हेक्टेयर)	0.0076000
23	97//9/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1062000(हेक्टेयर)	0.1062000
गांव का नाम: पत्तो जवाहरसिंह (१५३)					
1	28//4	निजी	एग्रीकल्चर	0.1290000(हेक्टेयर)	0.1290000
2	21//17/4	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
3	21//18/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0759000(हेक्टेयर)	0.0759000
4	21//23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
5	21//24/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0683000(हेक्टेयर)	0.0683000
6	21//24/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
7	21//24/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.1821000(हेक्टेयर)	0.1821000
8	21//25/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
9	28//15/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
10	28//15/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0658000(हेक्टेयर)	0.0658000
11	28//15/2/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1163000(हेक्टेयर)	0.1163000
12	28//16/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
13	28//16/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1391000(हेक्टेयर)	0.1391000
14	28//25/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000
15	28//5/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
16	28//5/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0607000(हेक्टेयर)	0.0607000
17	28//5/3/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1012000(हेक्टेयर)	0.1012000
18	28//6/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.2681000(हेक्टेयर)	0.2681000
19	28//7/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
20	29//15/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000

21	29//16/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1720000(हेक्टेयर)	0.1720000
22	29//25/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1214000(हेक्टेयर)	0.1214000
23	29//5/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0506000(हेक्टेयर)	0.0506000
24	29//5/2/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1113000(हेक्टेयर)	0.1113000
25	29//6/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000
26	47/1/1	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन खला	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
27	47/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन खाल	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
28	47/2/1	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर मुमकिन	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
29	48/1	अन्य	गैर मुमकिन खला	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
कुल				10.3203	10.3203

[फा. सं. RW-NH22014/1243/PB/2017/Zone-II/3A1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2019

S.O. 3038(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH254 in the stretch of land from Km.38.00 to Km. 56.240 & Km. 70.500 to Km. 80.160 (Sub-Divisional Magistrate, Nehal Singh Wala) in the district of MOGA in the State of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH254 in the stretch of land from NH254 from Km.38.00 to Km.56.240 & Km.70.500 to Km.80.160 (Sub Divisional Magistrate, Nehal Singh Wala) in the district of MOGA in the state of PUNJAB

State: PUNJAB District: MOGA					
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nihal Singhwala					
Village: Dina (145)					
1	163	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin	0.0051000(Hectare)	0.0051000
2	19//5/1/3	Private	Agriculture	0.0784000(Hectare)	0.0784000
3	19//5/2/2	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
4	19//6/1/2	Private	Agriculture	0.0354000(Hectare)	0.0354000
5	19//6/2/2	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
6	9//17/3	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
7	9//24/2	Private	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
8	9//25/1/3	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
Village: Khai (148)					
1	101//12/2/2	Private	Agriculture	0.0506000(Hectare)	0.0506000
2	101//2/2/1	Private	Agriculture	0.0569000(Hectare)	0.0569000
3	101//2/3	Private	Agriculture	0.1012000(Hectare)	0.1012000
4	101//9/1	Private	Agriculture	0.0506000(Hectare)	0.0506000
5	101//9/2/1	Private	Agriculture	0.1163000(Hectare)	0.1163000
6	156	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Maria	0.0430000(Hectare)	0.0430000
7	16//12/2/1	Private	Agriculture	0.0329000(Hectare)	0.0329000
8	16//13/1	Private	Agriculture	0.0658000(Hectare)	0.0658000
9	16//18	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
10	16//19/1/1	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
11	16//22/2/1	Private	Agriculture	0.1239000(Hectare)	0.1239000
12	16//23	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
13	16//8/1/2	Private	Agriculture	0.0304000(Hectare)	0.0304000
14	29//13/1	Private	Agriculture	0.0607000(Hectare)	0.0607000
15	29//13/3	Private	Agriculture	0.0809000(Hectare)	0.0809000
16	29//13/4	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
17	29//17	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000

18	29//18/1	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
19	29//18/2	Private	Agriculture	0.1189000(Hectare)	0.1189000
20	29//2/1	Private	Agriculture	0.0809000(Hectare)	0.0809000
21	29//23	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
22	29//24	Private	Agriculture	0.1290000(Hectare)	0.1290000
23	29//3/1	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
24	29//3/2/1	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
25	29//3/2/2	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
26	29//8/1	Private	Agriculture	0.0354000(Hectare)	0.0354000
27	29//8/2	Private	Agriculture	0.0885000(Hectare)	0.0885000
28	29//8/3	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
29	29//9	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
30	315/2	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Gadkhad	0.0101000(Hectare)	0.0101000
31	316/2	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Gadkhad	0.0177000(Hectare)	0.0177000
32	317/5	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Gadkhad	0.0101000(Hectare)	0.0101000
33	322	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Gadkhad	0.0051000(Hectare)	0.0051000
34	339/2	Common(Gram Panchayet)	Rasta Gair Mumkin	0.0101000(Hectare)	0.0101000
35	340/2	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Rasta	0.0101000(Hectare)	0.0101000
36	358	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Rasta	0.0202000(Hectare)	0.0202000
37	41//14/2	Private	Agriculture	0.0506000(Hectare)	0.0506000
38	41//15/1	Private	Agriculture	0.0455000(Hectare)	0.0455000
39	41//15/2/1	Private	Agriculture	0.0658000(Hectare)	0.0658000
40	41//16	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
41	41//25	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
42	41//4/1	Private	Agriculture	0.1543000(Hectare)	0.1543000
43	41//4/3	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
44	41//6	Private	Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
45	41//7	Private	Agriculture	0.1518000(Hectare)	0.1518000
46	413/2	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Rasta	0.0126000(Hectare)	0.0126000
47	59//10/2	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
48	59//11	Private	Agriculture	0.0607000(Hectare)	0.0607000
49	59//20/1	Private	Agriculture	0.0354000(Hectare)	0.0354000
50	59//20/2/1	Private	Agriculture	0.0304000(Hectare)	0.0304000

51	59//20/2/2	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
52	59//21/1	Private	Agriculture	0.0961000(Hectare)	0.0961000
53	60//15	Private	Agriculture	0.0911000(Hectare)	0.0911000
54	60//16/2	Private	Agriculture	0.0354000(Hectare)	0.0354000
55	60//16/3	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
56	60//25/1	Private	Agriculture	0.0430000(Hectare)	0.0430000
57	60//25/2	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
58	60//5/1	Private	Agriculture	0.0506000(Hectare)	0.0506000
59	60//5/2	Private	Agriculture	0.1062000(Hectare)	0.1062000
60	60//6	Private	Agriculture	0.1416000(Hectare)	0.1416000
61	71//15/1	Private	Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
62	71//15/2	Private	Agriculture	0.0911000(Hectare)	0.0911000
63	71//16/1	Private	Agriculture	0.0566000(Hectare)	0.0566000
64	71//16/2	Private	Agriculture	0.0455000(Hectare)	0.0455000
65	71//16/3	Private	Agriculture	0.0405000(Hectare)	0.0405000
66	71//25/1	Private	Agriculture	0.1037000(Hectare)	0.1037000
67	71//25/2	Private	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
68	71//25/3	Private	Agriculture	0.0392000(Hectare)	0.0392000
69	71//5	Private	Agriculture	0.0556000(Hectare)	0.0556000
70	71//6	Private	Agriculture	0.0759000(Hectare)	0.0759000
71	72//1/1	Private	Agriculture	0.0911000(Hectare)	0.0911000
72	72//10	Private	Agriculture	0.0809000(Hectare)	0.0809000
73	72//11	Private	Agriculture	0.0556000(Hectare)	0.0556000
74	72//20	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
75	82//14	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
76	82//15/1	Private	Agriculture	0.0531000(Hectare)	0.0531000
77	82//15/2/1	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
78	82//15/2/2	Private	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
79	82//16/2	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
80	82//17	Private	Agriculture	0.1416000(Hectare)	0.1416000
81	82//24	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
82	82//5/1	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
83	82//6	Private	Agriculture	0.1669000(Hectare)	0.1669000

84	92//13/1	Private	Agriculture	0.1518000(Hectare)	0.1518000
85	92//13/2	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
86	92//18/1	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
87	92//18/2	Private	Agriculture	0.1239000(Hectare)	0.1239000
88	92//19/1/1	Private	Agriculture	0.0304000(Hectare)	0.0304000
89	92//22	Private	Agriculture	0.1366000(Hectare)	0.1366000
90	92//23	Private	Agriculture	0.0405000(Hectare)	0.0405000
91	92//3	Private	Agriculture	0.0304000(Hectare)	0.0304000
92	92//4/1	Private	Agriculture	0.1163000(Hectare)	0.1163000
93	92//4/2	Private	Gair Mumkin	0.0126000(Hectare)	0.0126000
94	92//7	Private	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
95	92//8	Private	Agriculture	0.1416000(Hectare)	0.1416000
Village: Khote (152)					
1	115//2	Private	Gair Mumkin	0.0177000(Hectare)	0.0177000
2	60//19/2	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
3	60//20/2	Private	Agriculture	0.1037000(Hectare)	0.1037000
4	60//21/1	Private	Agriculture	0.0076000(Hectare)	0.0076000
5	60//22	Private	Agriculture	0.1189000(Hectare)	0.1189000
6	60//23/1/1	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
7	60//23/1/2	Private	Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
8	62//10/2	Private	Agriculture	0.0304000(Hectare)	0.0304000
9	62//11/1	Private	Agriculture	0.0911000(Hectare)	0.0911000
10	62//12/2	Private	Agriculture	0.0809000(Hectare)	0.0809000
11	62//18/1	Private	Gair Mukmin Makan	0.0278000(Hectare)	0.0278000
12	62//18/2	Private	Gair Mumkin	0.0455000(Hectare)	0.0455000
13	62//19	Private	Agriculture	0.0455000(Hectare)	0.0455000
14	63//3	Private	Agriculture	0.0784000(Hectare)	0.0784000
15	63//4/1	Private	Agriculture	0.0986000(Hectare)	0.0986000
16	63//6/2	Private	Agriculture	0.1315000(Hectare)	0.1315000
17	63//7	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
Village: Patto Hirasingsh (154)					
1	114//3	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
2	114//4/1/1	Private	Agriculture	0.1239000(Hectare)	0.1239000

3	114//7/2/1	Private	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
4	114//8/1/2	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
5	114//8/2/1	Common(Gram Panchayet)	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
6	14//25/2	Private	Agriculture	0.0632000(Hectare)	0.0632000
7	18//4/2/1	Private	Agriculture	0.0531000(Hectare)	0.0531000
8	18//4/2/2	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
9	18//5/1/2	Private	Agriculture	0.0708000(Hectare)	0.0708000
10	625	Common(Gram Panchayet)	Gair Mum Rasta	0.0152000(Hectare)	0.0152000
11	85//21/3	Private	Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
12	97//1/3	Private	Agriculture	0.0430000(Hectare)	0.0430000
13	97//12/2/2	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
14	97//13/1/1	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
15	97//13/3/1	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
16	97//17/1	Private	Agriculture	0.0835000(Hectare)	0.0835000
17	97//18/1	Private	Agriculture	0.0481000(Hectare)	0.0481000
18	97//18/1/2/2	Private	Agriculture	0.1214000(Hectare)	0.1214000
19	97//2/1	Private	Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
20	97//23	Private	Agriculture	0.0759000(Hectare)	0.0759000
21	97//24/1/3	Private	Agriculture	0.1442000(Hectare)	0.1442000
22	97//24/2/2	Private	Agriculture	0.0076000(Hectare)	0.0076000
23	97//9/1	Private	Agriculture	0.1062000(Hectare)	0.1062000
Village: Patto Jawaharsingh (153)					
1	28//4	Private	Agriculture	0.1290000(Hectare)	0.1290000
2	21//17/4	Private	Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
3	21//18/2	Private	Agriculture	0.0759000(Hectare)	0.0759000
4	21//23	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
5	21//24/1	Private	Agriculture	0.0683000(Hectare)	0.0683000
6	21//24/2	Private	Agriculture	0.0354000(Hectare)	0.0354000
7	21//24/3	Private	Agriculture	0.1821000(Hectare)	0.1821000
8	21//25/1	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
9	28//15/1	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
10	28//15/2/1	Private	Agriculture	0.0658000(Hectare)	0.0658000
11	28//15/2/2/2	Private	Agriculture	0.1163000(Hectare)	0.1163000
12	28//16/1/1	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
13	28//16/2	Private	Agriculture	0.1391000(Hectare)	0.1391000

14	28//25/1	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
15	28//5/1/1	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
16	28//5/2/1	Private	Agriculture	0.0607000(Hectare)	0.0607000
17	28//5/3/2	Private	Agriculture	0.1012000(Hectare)	0.1012000
18	28//6/1	Private	Agriculture	0.2681000(Hectare)	0.2681000
19	28//7/1	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
20	29//15/1	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
21	29//16/1	Private	Agriculture	0.1720000(Hectare)	0.1720000
22	29//25/1	Private	Agriculture	0.1214000(Hectare)	0.1214000
23	29//5/1	Private	Agriculture	0.0506000(Hectare)	0.0506000
24	29//5/2/2	Private	Agriculture	0.1113000(Hectare)	0.1113000
25	29//6/1	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
26	47/1/1	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin Khala	0.0101000(Hectare)	0.0101000
27	47/2	Common(Graam)	Gair Mumkin Khal	0.0177000(Hectare)	0.0177000
28	47/2/1	Common(Gram Panchayet)	Gair Mumkin	0.0101000(Hectare)	0.0101000
29	48/1	Common	Gair Mumkin Khala	0.0126000(Hectare)	0.0126000
Total				10.3203	10.3203

[F. No. RW-NH22014/1243/PB/2017/Zone-II/3A1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.